

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2015—आश्विन 4, शक 1937

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2015

सूचना

क्र. एफ 6-2-2013-सात-3(पार्ट).—राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24 सितम्बर 2015 को लिए गए निर्णय अनुसार राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है, और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है:—

अनुसूची

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	तहसील का नाम (3)
1	कटनी	बहोरीबन्द, ढीमरखेड़ा, मुड़वारा (कटनी) रीठी, बड़वारा, विजयराघोगढ़, बरही,
2	शहडोल	सोहागपुर, जैतपुर, ब्यौहारी, जयसिंहनगर, बुढार, गोहपारू.
3	उमरिया	बांधवगढ़, पाली, मानपुर, चंदिया, नौरोजाबाद,
4	अनूपपुर	अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा, जैतहरी.
5	टीकमगढ़	टीकमगढ़, बल्देवगढ़, निवारी, पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा, ओरछा, खरगापुर, मोहनगढ़, लिधौरा.
योग . . 05		32 तहसीलें

NOTICE

No. F 6-2-2013-Seven-3 (Part).—On the basis of taking decision by the State Government dated 24th September 2015, the State Government hereby, recognize the drought affected tahsils shown in Column in (3) of Schedule given below and this notice is published for wide publicity and information to general public:—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Tahsils (3)
1	Katni	Bahoriband, Dhimarkheda, Mudwara (Katni), Rithi, Barwara, Vijayraghogarh, Barhi.
2	Shahdol	Sohagpur, Jaitpur, Beohari, Jaisinghnagar, Budhar, Gohparu,
3	Umaria	Bandhaogarh, Pali, Manpur, Chandiya, Naurojabad.
4	Anuppur	Anuppur, Pushprajgarh, Kotma, Jaithari.
5	Tikamgarh	Tikamgarh, Baldeogarh, Niwari, Prithvipur, Jatara, Palera, Orchha, Khargapur, Mohangarh, Lidhaura.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.